

COM 210

B.Com. IV<sup>th</sup> SEMESTER EXAMINATION, 2024-25

COMMERCE

(Income Tax Law & Accounts-II)

(CBCS Mode)



AFFIX PRESCRIBED  
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the  
OMR Sheet)

Date (तिथि) : \_\_\_\_\_

5441

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

**Important Instructions :**

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

**महत्वपूर्ण निर्देश :**

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. Rectification of mistakes is done under section -
- (A) 145  
(B) 147  
(C) 153  
(D) 154
2. Deduction in respect of payment of interest on loan taken for higher education shall be allowed up to :
- (A) Rs. 25,000  
(B) Rs. 50,000  
(C) Rs. 1,50,000  
(D) No limit
3. For the assessment year 2024-25 the maximum permissible deduction u/s 80C is :
- (A) Rs. 1,12,000  
(B) Rs. 1,50,000  
(C) Rs. 2,00,000  
(D) No limit
1. त्रुटियों का शोधन निम्न धारा के अन्तर्गत किया जाता है -
- (A) 145  
(B) 147  
(C) 153  
(D) 154
2. उच्च शिक्षा हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती की अधिकतम सीमा है :
- (A) ₹ 25,000  
(B) ₹ 50,000  
(C) ₹ 1,50,000  
(D) कोई सीमा नहीं
3. कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 हेतु धारा 80C के अन्तर्गत अधिकतम अनुमन्य कटौती है :
- (A) ₹ 1,12,000  
(B) ₹ 1,50,000  
(C) ₹ 2,00,000  
(D) कोई सीमा नहीं

4. Which of the following items is covered under section 80D of the income tax Act ?
- (A) Medical Insurance Premium  
(B) Treatment of handicapped dependent  
(C) Repayment of interest on loan for higher education  
(D) None of the above
5. A resident individual received Rs. 5,00,000 as royalty on a literary book. He will get deduction  $\frac{u}{s}$  8022B up to -
- (A) Rs. 1,00,000  
(B) Rs. 3,00,000  
(C) Rs. 5,00,000  
(D) Rs. 4,00,000
6. Deduction under 80C of the Income Tax Act is not available to :
- (A) Individual  
(B) Hindu Undivided Family  
(C) Company  
(D) All of the these
4. आयकर अधिनियम की धारा 80D के अन्तर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है ?
- (A) चिकित्सा बीमा प्रीमियम  
(B) विकलांग आश्रित का उपचार  
(C) उच्चशिक्षा हेतु ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
5. एक आवासी व्यक्ति ने एक साहित्यिक पुस्तक पर अधिकार शुल्क ₹ 5,00,000 प्राप्त किया। उसे धारा 8022B के अन्तर्गत छूट मिलेगी -
- (A) ₹ 1,00,000  
(B) ₹ 3,00,000  
(C) ₹ 5,00,000  
(D) ₹ 4,00,000
6. आयकर अधिनियम की धारा 80C के अन्तर्गत छूट नहीं मिलेगी :
- (A) एकल व्यक्ति की  
(B) हिन्दू अविभाजित परिवार को  
(C) कम्पनी को  
(D) इनमें से सभी

7. Deduction in respect of interest on deposits in case of a senior citizen is allowed upto :

- (A) Rs. 10,000 on savings Account only
- (B) Rs. 50,000 on savings Account only
- (C) Rs. 10,000 on any deposit in bank or cooperative society
- (D) Rs. 50,000 on any deposit in bank or cooperative society

8. Deduction in respect of interest on loan taken to purchase electric vehicle is available under section \_\_\_\_\_ of the Income Tax Act.

- (A) 80 E
- (B) 80 EE
- (C) 80 EEA
- (D) 80 EEB

9. Section 80P of the Income Tax Act deals with :

- (A) Tax burden cooperative societies
- (B) Deductions from income of cooperative societies
- (C) Taxation of companies
- (D) Deductions from income of companies

7. एक वरिष्ठ नागरिक के जमाओं पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती निम्न सीमा तक उपलब्ध है :

- (A) 10,000 ₹ केवल बचत खाते पर
- (B) 50,000 ₹ केवल बचत खाते पर
- (C) बैंक या सहकारी समिति में किसी भी जमा पर 10,000 ₹
- (D) बैंक या सहकारी समिति में किसी भी जमा पर 50,000 ₹

8. विद्युत वाहन क्रयार्थ लिए गए ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा \_\_\_\_\_ के तहत कटौती उपलब्ध है ।

- (A) 80 E
- (B) 80 EE
- (C) 80 EEA
- (D) 80 EEB

9. आयकर अधिनियम की धारा 80P निम्न से सम्बन्धित है :

- (A) सहकारी समितियों पर कर भार
- (B) सहकारी समितियों की आय में छूट
- (C) कम्पनियों पर करारोपण
- (D) कम्पनियों की आय पर छूट

10. Section 80G is concerned with :
- (A) Interest on savings accounts  
 (B) Interest on education loan  
 (C) Deductions from income for donations  
 (D) None of these
11. Which section of the Income Tax Act deals with deductions from income for contribution to pension fund ?
- (A) 80 C  
 (B) 80 CCC  
 (C) 80 D  
 (D) 80 DD
12. Deduction from the income of a disabled person who is resident individual is covered under section \_\_\_\_\_ of the Income Tax Act.
- (A) 80 D  
 (B) 80 DD  
 (C) 80 GG  
 (D) 80 U
10. धारा 80G सम्बन्धित है :
- (A) बचत खाते पर ब्याज से  
 (B) शिक्षा ऋण पर ब्याज से  
 (C) दान के सम्बन्ध में आय से कटौती  
 (D) इनमें से कोई नहीं
11. आयकर अधिनियम की कौन सी धारा पेन्शन कोष में अंशदान हेतु आय से कटौती से सम्बन्धित है ?
- (A) 80 C  
 (B) 80 CCC  
 (C) 80 D  
 (D) 80 DD
12. एक विकलांग व्यक्ति, जो आवासी एकल व्यक्ति है, को आय से छूट आयकर अधिनियम की धारा \_\_\_\_\_ के अन्तर्गत दी जाती है।
- (A) 80 D  
 (B) 80 DD  
 (C) 80 GG  
 (D) 80 U

13. Regarding payment of life insurance premium deduction from income is provided for individual and Hindu undivided Family under section \_\_\_\_\_ of the Income Tax Act.
- (A) 80 A  
(B) 80 C  
(C) 80 CC  
(D) 80 CCC
14. No limit donation upto 100% is not available for deduction under the Income Tax Act in the case of :
- (A) PM-CARES Fund  
(B) Prime Minister's National Relief Fund  
(C) National children's Fund  
(D) Donation to any fund or institution for charitable purpose
15. What amount is accepted for deduction under section 80DD for disability ?
- (A) Rs. 15,000  
(B) Rs. 50,000  
(C) Rs. 75,000  
(D) Actual Expenses
13. जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के सम्बन्ध में एकल व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को आय से कटौती आयकर अधिनियम की धारा \_\_\_\_\_ के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
- (A) 80 A  
(B) 80 C  
(C) 80 CC  
(D) 80 CCC
14. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 100% तक बिना सीमा दान पर छूट निम्न मामले में नहीं मिलती है :
- (A) पी० एम०-केयर्स कोष  
(B) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  
(C) राष्ट्रीय बाल कोष  
(D) धर्मार्थ कार्य हेतु किसी कोष या संस्था को दान
15. धारा 80DD के अन्तर्गत दिव्यांगता हेतु कटौती की कितनी धनराशि स्वीकार की जाती है ?
- (A) ₹ 15,000  
(B) ₹ 50,000  
(C) ₹ 75,000  
(D) वास्तविक व्यय

16. The income tax on a long term capital gain for an individual in case of non-indexing the cost of acquisition is -
- (A) 10%  
(B) 15%  
(C) 20%  
(D) 30%
17. The income from the sale of household furniture is :
- (A) Capital gain  
(B) Revenue gain  
(C) Exempted income  
(D) Taxable income
18. Capital gain arises on :
- (A) Stock in trade  
(B) Business capital  
(C) Purchase of capital  
(D) Transfer of capital assets
19. Capital gains on depreciable assets will always be :
- (A) Exempt  
(B) Short-term capital gain  
(C) Long-term capital gain  
(D) None of these
16. अधिप्राप्ति लागत को स्फीति सूचकांकित किये बिना एकल व्यक्ति की दीर्घ कालीन पूँजी प्राप्ति पर आयकर लगता है -
- (A) 10%  
(B) 15%  
(C) 20%  
(D) 30%
17. घरेलू फर्नीचर की बिक्री से हुई आय को माना जाता है :
- (A) पूँजी लाभ  
(B) आयगत प्राप्ति  
(C) करमुक्त आय  
(D) कर योग्य आय
18. पूँजी लाभ उत्पन्न होता है :
- (A) व्यापारिक रहतिये से  
(B) व्यावसायिक पूँजी से  
(C) पूँजी क्रय से  
(D) पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से
19. हास योग्य सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ हमेशा होता है :
- (A) करमुक्त  
(B) अल्पकालिक पूँजी लाभ  
(C) दीर्घकालिक पूँजी लाभ  
(D) इनमें से कोई नहीं

20. Losses from specified business can be carried forward upto the following :
- (A) 4 years  
(B) 8 years  
(C) Unlimited time  
(D) Cannot be set-off in the following years
21. Long-term capital loss can be set-off in the following period :
- (A) 4 years  
(B) 8 years  
(C) Unlimited time  
(D) Cannot be carried forward
22. Loss of card games can be set-off from :
- (A) Income of card games  
(B) Income from other sources  
(C) Incomes chargeable for tax at special rate of 30%  
(D) None of these
23. Long-term capital loss can be set-off from :
- (A) Capital gains  
(B) Short-term capital gains  
(C) Long-term capital gains  
(D) Any income
20. निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि की निम्न अवधि तक आगे ले जाया जा सकता है :
- (A) 4 वर्ष  
(B) 8 वर्ष  
(C) असीमित समय  
(D) आगे के वर्षों में हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती है
21. दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति निम्न अवधि में की जा सकती है :
- (A) 4 वर्ष  
(B) 8 वर्ष  
(C) असीमित अवधि  
(D) आगे की अवधि में नहीं ले जाया जा सकता है
22. ताश के खेलों से हानि की पूर्ति की जा सकती है :
- (A) ताश के खेलों की आय से  
(B) आय के अन्य स्रोतों से  
(C) उन आयों से जिन पर 30% की विशेष दर से कर लगता है  
(D) इनमें से कोई नहीं
23. दीर्घकालीन पूँजी हानि की निम्न से पूर्ति की जा सकती है :
- (A) पूँजी लाभों से  
(B) अल्पकालीन पूँजी लाभों से  
(C) दीर्घकालीन पूँजी लाभों से  
(D) किसी भी आय से

24. Loss from speculative business can be set-off from :
- (A) Income of any head  
 (B) Not from any income  
 (C) Income of speculative business  
 (D) Profits and gains of Business or Profession
25. Sections related to clubbing of incomes under the Income Tax Act, 1961 are :
- (A) Section 60 to 64  
 (B) Section 60 to 69  
 (C) Section 70 to 74  
 (D) Section 70 to 79
26. The income of minor is not clubbed in the income of parents to the following limit :
- (A) Rs. 1500 per child per month  
 (B) Rs. 1500 per child per year  
 (C) Rs. 1500 for maximum two children per month  
 (D) Rs. 1500 for maximum two children per year
24. परिकल्पनिक व्यवसाय से हानि की पूर्ति निम्न से की जा सकती है :
- (A) किसी भी शीर्षक की आय  
 (B) किसी भी आय से नहीं  
 (C) परिकल्पनिक व्यवसाय की आय  
 (D) व्यवसाय या पेशे के लाभों या प्राप्तियों से
25. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयों को मिलाने से सम्बन्धित धाराएं हैं :
- (A) धारा 60 से 64  
 (B) धारा 60 से 69  
 (C) धारा 70 से 74  
 (D) धारा 70 से 79
26. निम्न सीमा तक अवयस्क की आय को माता-पिता की आय में मिलाया नहीं जाता :
- (A) 1500 ₹ प्रति बच्चा प्रतिमाह  
 (B) 1500 ₹ प्रति बच्चा प्रतिवर्ष  
 (C) 1500 ₹ अधिकतम दो बच्चों के लिये प्रतिमाह  
 (D) 1500 ₹ अधिकतम दो बच्चों के लिये प्रतिवर्ष

27. Income of physically handicapped minor child shall be included in the income of the following :
- (A) Mother  
(B) Father  
(C) Mother or father whose income is greater  
(D) None of the above
28. Income clubbing in case the transfer of the asset is revocable, is :
- (A) In income of the transferee  
(B) In income of the transferor  
(C) Exempt for five years from transfer  
(D) After the life time of transferee in income of transferor
29. Income of a minor child is included in the total income of the following :
- (A) Transferor of the asset  
(B) Father  
(C) Guardian  
(D) Either parent whose income is greater
27. शारीरिक दिव्यांग अवयस्क बच्चे की आय को निम्न की आय में शामिल किया जाना चाहिए :
- (A) माता  
(B) पिता  
(C) माता या पिता जिसकी आय अधिक हो  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
28. सम्पत्ति का हस्तांतरण खण्डनीय होने पर आय को शामिल किया जाता है :
- (A) हस्तांतरित की आय में  
(B) हस्तांतरणकर्ता की आय में  
(C) हस्तान्तरण के पांच वर्षों तक कर मुक्त  
(D) हस्तांतरित के जीवन काल के उपरान्त हस्तांतरणकर्ता की आय में
29. एक अवयस्क बच्चे की आय निम्न की कुल आय में शामिल की जाती है :
- (A) सम्पत्ति के हस्तांतरणकर्ता  
(B) पिता  
(C) अभिभावक  
(D) माता या पिता जिसकी आय अधिक हो

30. Less-Tax Non-Government Securities are grossed up when -
- (A) The amount of interest received is given  
 (B) The rate of interest is given  
 (C) Both the amount and rate of interest are given  
 (D) No need from grossing up
31. Salary of a member of Parliament will be taxable under the head :
- (A) Salaries  
 (B) Profit and Gains from Business or Profession  
 (C) Income From other Sources  
 (D) Capital Gains
32. Income from sub-letting of House Property is :
- (A) Exempted  
 (B) Income from House Property  
 (C) Profits and Gains from Business  
 (D) Income from other Sources
33. Pension is taxable under which head :
- (A) Salaries  
 (B) Capital Gains  
 (C) Income from other Sources  
 (D) Under any of the above
30. करयुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों का सकलीकरण किया जाता है जब -
- (A) ब्याज की राशि दी हुई हो  
 (B) ब्याज की दर दी हुई हो  
 (C) ब्याज की राशि तथा दर दोनों दी हुई हो  
 (D) सकलीकरण की कोई आवश्यकता नहीं
31. सांसद का वेतन निम्न शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगा :
- (A) वेतन  
 (B) व्यवसाय या पेशे से लाभ या प्राप्तियां  
 (C) अन्य स्रोतों से आय  
 (D) पूँजी लाभ
32. गृह-सम्पत्ति को उप-किराये पर उठाने से आय है :
- (A) कर मुक्त  
 (B) गृह सम्पत्ति से आय  
 (C) व्यवसाय से लाभ या प्राप्तियां  
 (D) अन्य स्रोतों से आय
33. पेन्शन किस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है :
- (A) वेतन  
 (B) पूँजी लाभ  
 (C) अन्य स्रोतों से आय  
 (D) उपरोक्त में से किसी के अन्तर्गत

34. Which of the following is not chargeable to tax under the head 'Income from other Sources' :
- (A) Profit on sale of goodwill of a business
- (B) Prize on Crossword puzzles
- (C) Interest from bank
- (D) Dividend from a cooperative Society
35. An individual received family pension Rs. 75,000. How much standard deduction shall be allowed to him ?
- (A) Rs. 10,000
- (B) Rs. 15,000
- (C) Rs. 25,000
- (D) Rs. 50,000
36. Which of the following does not come under the category of capital asset transfer ?
- (A) Will
- (B) Gift
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of these
34. निम्न में से कौन सा 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कराधान योग्य नहीं है :
- (A) व्यवसाय की ख्याति बेचने से आय
- (B) क्रॉसवर्ड पहेलियों पर पुरस्कार
- (C) बैंक से ब्याज
- (D) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश
35. एक व्यक्ति ने 75000 ₹ का पारिवारिक पेंशन प्राप्त किया, उसे कितने की मानक कटौती मिलेगी ?
- (A) ₹ 10,000
- (B) ₹ 15,000
- (C) ₹ 25,000
- (D) ₹ 50,000
36. निम्न में से कौन सा पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तरण की श्रेणी में नहीं आता ?
- (A) वसीयत
- (B) उपहार
- (C) (A) तथा (B) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

37. In the case of unlisted shares, long capital gains will arise, if the assessee retains the shares with him for a period of :
- (A) 12 months or more  
(B) 24 months or more  
(C) Less than 12 months  
(D) Less than 24 months
38. Cost inflation index for the financial year 2012-13 is -
- (A) 100  
(B) 200  
(C) 348  
(D) 363
39. For capital gains being a long-term capital gains, an assessee should hold the asset for a period of at least :
- (A) 12 months  
(B) 24 months  
(C) 36 months  
(D) More than 36 months
37. गैर सूचीकृत अंशों के मामले में दीर्घकालिक पूँजी लाभ उत्पन्न होगा यदि निर्धारित अंशों की \_\_\_\_\_ अवधि के लिए धारण किए रहता है :
- (A) 12 माह या अधिक  
(B) 24 माह या अधिक  
(C) 12 माह से कम  
(D) 24 माह से कम
38. 2012-13 के वित्तीय वर्ष हेतु लागत स्फीति सूचकांक है -
- (A) 100  
(B) 200  
(C) 348  
(D) 363
39. पूँजी लाभ लम्बी अवधि के हों, इसके लिए कर निर्धारित को सम्पत्ति कम से कम \_\_\_\_\_ की अवधि के लिए धारण करना चाहिए :
- (A) 12 माह  
(B) 24 माह  
(C) 36 माह  
(D) 36 माह से अधिक

40. Capital gains arising to an individual on the transfer of property used for residence is provided tax exemption under.
- (A) Section 45  
(B) Section 54  
(C) Section 54(EC)  
(D) Section 54(F)
41. Tax deducted at source is :
- (A) Treated as expense  
(B) Treated as fine  
(C) Treated as receipt  
(D) Neither treated as a receipt nor expenses
42. Sum of various heads of income is called :
- (A) Total Income  
(B) Net Taxable Income  
(C) Gross Total Income  
(D) Taxable Income
43. Which income is rounded off :
- (A) Total Income  
(B) Gross Total Income  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of these
40. निवास हेतु प्रयुक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर किसी व्यक्ति की होने वाले पूंजी लाभ पर कर छूट \_\_\_\_\_ के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
- (A) धारा 45  
(B) धारा 54  
(C) धारा 54(EC)  
(D) धारा 54(F)
41. स्रोत पर कर की कटौती है :
- (A) व्यय  
(B) अर्थदण्ड  
(C) प्राप्ति के समतुल्य  
(D) न तो प्राप्ति न ही व्यय
42. आय के विभिन्न शीर्षकों के योग को कहते हैं :
- (A) कुल आय  
(B) शुद्ध कर योग्य आय  
(C) सकल कुल आय  
(D) करयोग्य आय
43. किस आय को निकटतम अंकों में दिखाया जाता है :
- (A) कुल आय  
(B) सकल कुल आय  
(C) (A) तथा (B) दोनों  
(D) इनमें से कोई नहीं

44. The rate of Health and Education Cess is :
- (A) 2%  
(B) 4%  
(C) 5%  
(D) 10%
45. The rate of tax on lottery winnings is :
- (A) 10%  
(B) 20%  
(C) 25%  
(D) 30%
46. Who controls the Income Tax Department :
- (A) Income Tax officer  
(B) Income Tax commissioner  
(C) Central Board of Direct Taxes  
(D) None of these
47. The last chain of income tax authorities is -
- (A) Income Tax officer  
(B) Inspector of Income Tax  
(C) Tax Recovery officer  
(D) None
44. स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर की दर :
- (A) 2%  
(B) 4%  
(C) 5%  
(D) 10%
45. लॉटरी जीतने पर कर की दर होती है :
- (A) 10%  
(B) 20%  
(C) 25%  
(D) 30%
46. आयकर विभाग का नियन्त्रण कौन करता है :
- (A) आयकर अधिकारी  
(B) आयकर आयुक्त  
(C) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड  
(D) इनमें से कोई नहीं
47. आयकर अधिकारियों की अन्तिम कड़ी है :
- (A) आयकर अधिकारी  
(B) आयकर निरीक्षक  
(C) कर वसूली अधिकारी  
(D) कोई नहीं

48. \_\_\_\_\_ is the acknowledgement of filing the return of income.
- (A) ITR-1  
(B) ITR-4  
(C) FORM 262B  
(D) ITR-V
49. Due date of filing Return of Income in case of an individual is :
- (A) 31<sup>st</sup> July  
(B) 31<sup>st</sup> August  
(C) 30<sup>th</sup> September  
(D) 31<sup>st</sup> March
50. Which of the following is not a capital asset ?
- (A) Jewellery  
(B) Stock in Trade  
(C) Agricultural land in Mumbai city  
(D) Goodwill of a business
48. \_\_\_\_\_ आय विवरणी दाखिले का स्वीकृति पत्र है।
- (A) ITR-1  
(B) ITR-4  
(C) प्रपत्र 262B  
(D) ITR-V
49. एकल व्यक्ति के मामले में आय विवरणी दाखिल करने की अन्तिम निर्धारित तिथि है :
- (A) 31 जुलाई  
(B) 31 अगस्त  
(C) 30 सितम्बर  
(D) 31 मार्च
50. निम्न में से कौन सी पूंजी सम्पत्ति नहीं मानी जाती है ?
- (A) जवाहरात  
(B) व्यापारिक रहतिया  
(C) मुम्बई शहर में कृषि भूमि  
(D) व्यवसाय की ख्याति

\*\*\*\*\*